

तुरंत रिलीज के लिए

## रिवरस्टोन कम्युनिटी सेंटर अब ब्रैम्पटन में खुल गया है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 जुलाई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का सबसे नया कम्युनिटी सेंटर, रिवरस्टोन कम्युनिटी सेंटर (Riverstone Community Centre), अब पब्लिक के लिए खुल गया है।

रिवरस्टोन कम्युनिटी सेंटर, बहाल की गई 34,000 सक्वेयर फुट की रेक्रिएशन फैसिलिटी है, जिसमें अपडेट किया गया साल्टवाटर पूल, बढ़ाए गए कपड़े बदलने के कमरे और फिटनेस कमरे तथा कई मल्टी-पर्पज कमरे हैं। नए कम्युनिटी सेंटर में, फिटनेस एरिया, सक्वैश कोर्ट्स आदि भी हैं।

रिवरस्टोन कम्युनिटी सेंटर, ब्रैम्पटन में 195 डॉन मिनाकर ड्राइव (195 Don Minaker Drive) में स्थित है। पूरी सुविधा सूची और प्रोग्रामों के लिए रजिस्टर करने हेतु, [www.brampton.ca/riverstone](http://www.brampton.ca/riverstone) पर जाएं।

### हवाले

“हम ब्रैम्पटन में रिवरस्टोन कम्युनिटी सेंटर खोलने के लिए उत्साहित हैं, जो हमारे शहर का सबसे नया रेक्रिएशन सेंटर है। इसकी मुरम्मतों में, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी री-फिट्स से लेकर साल्ट वाटर पूल के लिए सुलभ रैंप, फिटनेस उपकरण रिप्लेसमेंट आदि शामिल हैं। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि फैसिलिटी की पड़ताल करें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है और हम, हमारी कम्युनिटी में हर किसी के लिए सुलभ रेक्रिएशन अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। रिवरस्टोन कम्युनिटी सेंटर एक शानदार वृद्धि है, जो पूरे ब्रैम्पटन को सेवा प्रदान करेगी।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी का स्टाफ, रिवरस्टोन कम्युनिटी सेंटर लोगों का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। 34,000 सक्वेयर फुट की फैसिलिटी को, हमारी कम्युनिटी के स्वास्थ्य और तंदरुस्ती संबंधी कार्यों की सबसे बढ़िया सेवा देने के लिए अपडेट किया गया है।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन



## Media Release

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

### मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)